

प्रेस नोट

थाना सेहरामऊ उत्तरी पुलिस द्वारा मात्र 24 घंटे में किया हत्या की घटना का सफल अनावरण ।

दिनांक 17.07.2022 को समय लगभग 07.00 बजे मृतक फरमान पुत्र शान मोहम्मद निवासी ग्राम केसरपुर कला, थाना सेहरामऊ उत्तरी, जनपद पीलीभीत का शव सगीर अहमद के धान के खेत के पास पड़े होने की सूचना पर मृतक फरमान के भाई शादाब द्वारा थाना सेहरामऊ उत्तरी पर दी गयी सूचना पर तत्काल मौके पर डॉग स्कॉव्ड टीम, फोरेसिक टीम मौके पर आयी मृतक के शव को कब्जे में लेकर पंचायतनामा की कार्यवाही कर शव को पोस्टमार्टम हेतु भेजा गया। उपरोक्त घटना के सम्बन्ध में वादी मुकदमा श्री शादाब उपरोक्त द्वारा मु0अ0सं0-136/2022 धारा 302/201/34 भादवि0 बनाम 1.मुईनुद्दीन पुत्र कलीमुद्दीन उम्र करीब 45 वर्ष 2. फुरकान पुत्र मुईनुद्दीन उम्र करीब 21 वर्ष 3. आजम पुत्र मुईनुद्दीन उम्र करीब 19 वर्ष 4. अकरम पुत्र मुईनुद्दीन निवासीगण ग्राम केसरपुर कला, थाना सेहरामऊ उत्तरी, जनपद पीलीभीत के विरुद्ध पंजीकृत कराया गया। इसी क्रम में श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय के आदेशानुसार, श्रीमान अपर पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन तथा क्षेत्राधिकारी पूरनपुर के निकट पर्यवेक्षण में जनपद पीलीभीत की सर्विलांस टीम, एसओजी एवं थाना सेहरामऊ उत्तरी की टीम को घटना का त्वरित सफल अनावरण करने हेतु निर्देशित किया गया जिसके अनुपालन में आज दिनांक 18.07.2022 को थाना सेहरामऊ उत्तरी पुलिस द्वारा विवेचना एवं जांच से घटना का सफल अनावरण करते हुए अभियुक्तगण 1.मुईनुद्दीन पुत्र कलीमुद्दीन उम्र करीब 45 वर्ष 2. फुरकान पुत्र मुईनुद्दीन उम्र करीब 21 वर्ष 3. आजम पुत्र मुईनुद्दीन उम्र करीब 19 वर्ष निवासीगण ग्राम केसरपुर कला थाना सेहरामऊ उत्तरी जनपद पीलीभीत को गिरफ्तार किया गया। अभियुक्तों के कब्जे से मृतक फरमान की हत्या में प्रयोग किये गये दुपट्टे, तकिया, मृतक फरमान का मोबाईल फोन को बरामद किया गया। अभियुक्त गण 1.मुईनुद्दीन पुत्र कलीमुद्दीन 2. फुरकान पुत्र मुईनुद्दीन 3. आजम पुत्र मुईनुद्दीन द्वारा अपने घर में हत्या किया जाना व शव को सगीर के धान के खेत के पास फेंका जाना स्वीकार किया गया है। अभियुक्तगण को माननीय न्यायालय भेजा गया।

गिरफ्तार अभियुक्तगण:-

1. मुईनुद्दीन पुत्र कलीमुद्दीन उम्र करीब 45 वर्ष
2. फुरकान पुत्र मुईनुद्दीन उम्र करीब 21 वर्ष
3. आजम पुत्र मुईनुद्दीन उम्र करीब 19 वर्ष

सर्व निवासीगण ग्राम केसरपुर कला थाना सेहरामऊ उत्तरी पीलीभीत

पुलिस टीम:-

थानाध्यक्ष श्री कमलेश कुमार मिश्र

उ0नि0 श्री रिशाल सिंह

का0 374 अखिलेश कुमार

का0 1444 चिराग बालियान

का0 315 वसीम अहमद

